

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग-सप्तम

विषय-हिन्दी

विस्मयादिबोधक अव्यय - परिभाषा, प्रकार |

हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया है?

- (1) अव्यय किसे कहते हैं
- (2) अव्यय के प्रकार
- (3) विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा
- (4) विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रकार
- (5) महत्वपूर्ण प्रश्न

अव्यय या अविकारी शब्द की परिभाषा ||

अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं

अविकारी पद को अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है, जिसका व्यय न हो अर्थात् जिसमें कुछ भी घट-बढ़ न हो। व्याकरण में ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनका रूप नहीं बदलता।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पद लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते हैं, परंतु अव्यय शब्द पदों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलते। इसलिए उन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं।

अव्यय या अविकारी शब्द के प्रकार ॥

अव्यय के भेद

अविकारी शब्द को चार भागों में बाँटा जाता है-

1. क्रियाविशेषण
2. संबंधबोधक
3. समुच्चयबोधक
4. विस्मयादिबोधक

तो दोस्तों हम पिछले अर्टिकल में समुच्चयबोधक अव्यय एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम अविकारी शब्दों के अन्तर्गत विस्मयादिबोधक अव्यय पढ़ेंगे।

विस्मयादिबोधक chih,विस्मयादिबोधक का अर्थ,इंटरजेक्शन मीनिंग इन हिंदी,vismayadibodhak avyay ki paribhasha,vismayadibodhak avyay ke bhed,vismayadibodhak avyay ke prakar, interjection in hindi, interjection hindi me,vismayadibodhak avyay hindi grammar, interjection hindi grammar,विस्मयादिबोधक अव्यय हिंदी में,हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय,विस्मयादिबोधक अव्यय हिंदी व्याकरण,विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रकार,विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद,विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह,विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा एवं भेद,



विस्मयादिबोधक की परिभाषा ॥

विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं

हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं।

विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण

- (क) शाबाश! तुम बहुत अच्छा खेले।
- (ख) वाह! क्या गेंद फेंकी है?
- (ग) उफ! कितनी गर्मी है।
- (घ) अच्छा! तो तुम आ गए।
- (ङ) धन्यवाद! आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया।
- (च) खबरदार! अब इधर कदम मत रखना।

उपर्युक्त वाक्यों में 'शाबाश', 'वाह', 'उफ़', 'अच्छा', 'धन्यवाद', 'खबरदार' आदि शब्दों से मन के विभिन्न भावों का बोध हो रहा है, इन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं।

विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रकार ॥

विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद

- (i) शोकबोधक
- (ii) घृणाबोधक
- (iii) हर्षबोधक
- (iv) विस्मयबोधक
- (v) स्वीकृतिबोधक
- (vi) भयबोधक
- (vii) संबोधनबोधक
- (viii) चेतावनीबोधक

विस्मयादिबोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं

विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मयादिबोधक शब्दों के भेद इस प्रकार हैं-

शोकबोधक

जहाँ पर शोक का भाव प्रकट होता है, वहाँ शोकबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं।

जैसे - हाय! हा! उफ! हे राम!, ओह!, हे भगवान!, त्राहि-त्राहि! बाप रे! आदि
उदाहरण -

हाय! वो अब इस दुनिया में नहीं रहा ।

हे भगवान! ये कैसा न्याय है।

घृणाबोधक

जहाँ पर घृणा का भाव प्रकट होता है, वहाँ घृणाबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं।

जैसे - छिः छिः! धिक्!. थू-थू!, धिक्कार!, लानत! आदि।

उदाहरण -

धिक्कार! है तुम्हारे इस पैसों पर।

छिः छिः! कितना गंदा है।

हर्षबोधक

जहाँ पर हर्ष (खुशी) का भाव प्रकट होता है, वहाँ हर्षबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं।

जैसे - आह!, वाह! शाबाश! आदि।

उदाहरण -

शाबाश ! बहुत अच्छा खेले तुम ।

वाह! मेरे राजा सुंदर लग रहे।

विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक

जहाँ पर विस्मय(आश्चर्य) का भाव प्रकट होता है, वहाँ विस्मयबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं।

जैसे - हैं! अरे!, क्या! सच!, ऐं! आदि।

उदाहरण -

अरे! क्या बात है।

क्या! नजारा है यार।

स्वीकृतिबोधक

जहाँ पर स्वीकृति का भाव प्रकट होता है, वहाँ स्वीकृतिबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं।

जैसे - हाँ!, जी हाँ!, बहुत अच्छा!. ठीक! हाँ जी! आदि।

उदाहरण -

जी हाँ ! हम आपका काम कर देंगे।

ठीक! आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा।

भयबोधक

जहाँ पर भय(डरने) का भाव प्रकट होता है,वहाँ भयबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है,जो निम्न हैं।

जैसे - बाप रे!, हाय!, आह!, बचाओ!, मरा रे! आदि।

उदाहरण -

बाप रे! कितना बड़ा सांप है।

बचाओ ! मेरे प्राण संकट में है।

संबोधनबोधक

जहाँ पर संबोधन का भाव प्रकट होता है,वहाँ संबोधनबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है,जो निम्न हैं।

जैसे - हे!, अजी!, लो!, अरे!, ओ! आदि।

उदाहरण -

हे! इधर आओ बेटा।

लो! ये ले जाओ यहाँ से।

चेतावनीबोधक

जहाँ पर चेतावनी का भाव प्रकट होता है,वहाँ चेतावनीबोधक विस्मय शब्दों का प्रयोग किया जाता है,जो निम्न हैं।

जैसे - होशियार! ,खबरदार! ,सावधान!, बचो!

उदाहरण -

होशियार ! आगे घना जंगल है।

सावधान ! कोरोना वायरस को हल्के में न ल

**विस्मयादिबोधक
अव्यय की परिभाषा
और प्रकार
hindiamrit.com**

विस्मयादिबोधक शब्दों की विशेषताएँ

1. विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं।
3. इनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से नहीं होता क्योंकि ये वाक्य के अंग नहीं होते।
5. इन शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि की तरह कोई अर्थ नहीं होता।
6. ये शब्द किसी भाव की तीव्रता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
7. विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लगाया जाता है।

विस्मयादिबोधक अव्यय - परिभाषा, प्रकार | interjection in hindi से जुड़े परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न-1- छी!छी! का प्रयोग किस लिए किया जाता है?

उत्तर- घृणा के लिए

प्रश्न-2- वाह! कौन सा भाव प्रदर्शित करता है?

उत्तर- हर्ष

प्रश्न-3- सावधान! का प्रयोग किस लिए किया जाता है?

उत्तर- चेतावनी के लिए

प्रश्न-4- हे राम! कौन सा भाव प्रदर्शित करता है?

उत्तर- दुःख

सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़िये टच करके

» भाषा » बोली » लिपि » वर्ण » स्वर » व्यंजन » शब्द » वाक्य » वाक्य शुद्धि » संज्ञा » लिंग » वचन » कारक » सर्वनाम » विशेषण » क्रिया » काल » वाच्य » क्रिया विशेषण » सम्बंधबोधक अव्यय » समुच्चयबोधक अव्यय » विस्मयादिबोधक अव्यय » निपात » विराम चिन्ह » उपसर्ग » प्रत्यय » संधि » समास » रस » अलंकार » छंद » विलोम शब्द » तत्सम तत्भव शब्द » पर्यायवाची शब्द » शुद्ध अशुद्ध शब्द » विदेशी शब्द » वाक्यांश के लिए एक शब्द » समानोच्चरित शब्द » मुहावरे » लोकोक्ति » पत्र » निबंध

बाल मनोविज्ञान चैप्टरवाइज पढ़िये uptet / ctet /supertet

Uptet हिंदी का विस्तार से सिलेबस समझिए

हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िये और पढ़िये नीचे दी गयी लिंक को टच करके विजिट कीजिये ।

https://www.youtube.com/channel/UCybBX_v6s9-o8-3CltfA7Vg

आशा है दोस्तों आपको यह टॉपिक विस्मयादिबोधक अव्यय - परिभाषा, प्रकार | interjection in hindi पढ़कर पसन्द आया होगा। इस टॉपिक से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी खत्म हो गयी होगी। और जरूर अपने इस टॉपिक से बहुत कुछ नया प्राप्त किया होगा।

हमें कमेंट करके जरूर बताये की आपको पढ़कर कैसा लगा। हम आपके लिए हिंदी के समस्त टॉपिक लाएंगे।



समुच्चयबोधक अव्यय - परिभाषा, प्रकार / conjunction in hindi

April 22, 2020

In "UP सहायक अध्यापक परीक्षा"



संबंधबोधक अव्यय - परिभाषा, प्रकार / preposition in hindi

April 21, 2020

In "UP सहायक अध्यापक परीक्षा"



निपात किसे कहते हैं / निपात के प्रकार / nipaata in hindi

April 23, 2020

In "UP सहायक अध्यापक परीक्षा"

FacebookTwitterWhatsAppFacebook
MessengerCopy LinkShare

CategoriesUP सहायक अध्यापक परीक्षा, UPTET, हिन्दीTagsHindi, Hindi for uptet, Hindi grammar, Hindi grammar pdf, Uptet hindi, हिंदी व्याकरणPost navigation

समुच्चयबोधक अव्यय - परिभाषा,प्रकार | conjunction in hindi

निपात किसे कहते हैं | निपात के प्रकार | nipaata in hindi

Leave a Comment

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

Search for:

Recent Posts

- [मुहावरे एवं उनका अर्थ | 300 महत्वपूर्ण मुहावरों का अर्थ | हिंदी में मुहावरे | idioms in hindi](#)
- [हिंदी में अनेकार्थी शब्द | 200+ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों की लिस्ट | anekarthi shabdo ki list](#)
- [हरिगीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण | harigitika chhand in hindi | हरिगीतिका छंद के उदाहरण](#)
- [गीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण | gitika chhand in hindi | गीतिका छंद के उदाहरण](#)
- [उल्लाला छंद की परिभाषा और उदाहरण | ullala chhand in hindi | उल्लाला छंद के उदाहरण](#)

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Email Address

Subscribe

•

•

•

•